

प्रेस नोट दिनांक-05-07-2021

(1). यूपी 112 जनपद चित्रकूट

जनपद चित्रकूट पीआरवी 2028 थाना मानिकपुर अंतर्गत दिनांक 01:21 बजे इवेंट संख्या 0715 द्वारा घटनास्थल मानिकपुर घाटी थाना मानिकपुर से कॉलर अर्जुन (मोबाइल नंबर 8815987379)

द्वारा सूचना दी गयी कि पिक अप एक्सीडेंट हो गया है पलट गई है घायल संख्या 2 है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि एक पिकअप गाड़ी मानिकपुर घाटी के पास अनियंत्रित होकर पलट गई है जिससे 02 लोग गंभीर रूप से घायल हो गये है। दोनों घायलों को पीआरवी वाहन द्वारा लाकर chc अस्पताल मानिकपुर में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में थाना पुलिस को भी बताया गया है।

पीआरवी स्टाफ

कमांडर - hc मोहम्मद वसीम

पायलट - c रामाज्ञा यादव

(2). यूपी 112 जनपद चित्रकूट

जनपद चित्रकूट पीआरवी 4417 थाना कोतवाली कर्वी अंतर्गत दिनांक 04/07/2021 को समय 21:24 बजे इवेंट संख्या 16535 द्वारा घटनास्थल कछार पुरवा थाना कोतवाली कर्वी से कॉलर अर्जुन कुमार (मोबाइल नंबर 9569841326) द्वारा सूचना दी गयी कि मामा मामी के बीच विवाद हुआ है मामी डाई पीने की धमकी दे रही है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंचने पर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि कॉलर के मामा राममिलन और मामी सुमन में आपसी लड़ाई झगड़ा और विवाद हुआ था जिससे कॉलर की मामी सुमन ने डाई पी ली है। जिससे सुमन की हालत खराब हो गई है। पीआरवी कर्मियों ने महिला सुमन को जिला अस्पताल सोनेपुर में भर्ती कराया है साथ में परिवारीजन भी है। महिला की हालत अब ठीक है।

पीआरवी स्टाफ

कमांडर - आरक्षी अजीत पाल

पायलट - hg भगवत प्रसाद

(3). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में गौरी गैंग की धरपकड़ हेतु चित्रकूट पुलिस द्वारा जंगलों में लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक-05.07.2021 को श्री सुशीलचन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इमरती पुरवा, रौखरी पुरवा, दोहाई पुरवा एवं इटवा के जंगलों में गौरी यादव गैंग की धरपकड़ हेतु कॉम्बिंग की गयी।

(4). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 05.07.2021 को एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा मैकी मोड़ देऊधा में, एण्टी रोमियो टीम थाना बहिलपुरवा द्वारा रेलवे स्टेशन बहिलपुरवा व ग्राम किथना में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर में, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में, एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा शीतल का पुरवा एवं कस्बा मारकुण्डी में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा कर्वी शहर में काली माता मंदिर, उतार खाना, बस स्टैण्ड, बाजार में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।